

घर आएँ हैं लक्ष्मण राम

घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही॥

बागा फूल बगीचा फूल्या,
फूल रही बनराइ,
पूरी अयोध्या ऐसी फूली,
फूली कौशल्या हरी की माया,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही॥

पहले भाई भरत सून मिलिया,
पीछे कैकई माई,
अवधपुरी का सबसू मिलिया,
मिलिया कौशल्या हरी की माय,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही॥

उरे गाय को गोबर मंगवाओ,
घर आँगन नीपवाओं,
माणक मोत्यां चौक पुरावो,
कुम्भ कलश भदरावो जी,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही॥

सीता राम सिंघासन बैठ्या,
लक्ष्मण चँवर ढुलावे,
गुरु वशिष्ठ जी पूजा किन्ही,
सखियाँ मंगल गावे,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही॥

अवधपुरी की सब नर नारी,
धरी कलश पर झारी,
भर भर मुट्टी मोहर उवारें,
सूरत की बलिहारी,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही॥

मात कौशल्या पुछण लागी,
कहो लंक की बात,
किस विध गढ़ लंका जीती,
किस विध ल्याया सीता जाय,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही ॥

ठाट बाट लक्ष्मण ने रोक्या,
ओघट रोक्या राम,
दरवाजा लक्ष्मण ने रोक्या,
कूद पड़े जी हनुमान,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही ॥

रावण मार राम घर आये,
घर घर बटत बधाई,
सुर जन मुनि जन करत आरती,
तुलसी दास यश गाये,
अयोध्या नगरी फूल रही,
घर आएँ हैं लक्ष्मण राम,
अयोध्या नगरी फूल रही ॥

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/24670/title/ghar-aaye-hai-lakshman-ram>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |